

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 196]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 15 मई 2014—वैशाख 25, शक 1936

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 15 मई 2014

क्र. एफ-12-1-रा.स.-यू.ए.-5-2014-524.—इस सचिवालय की समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक एफ-12-1-रा.स.-यू.ए.-5-2012-372, दिनांक 01 अप्रैल 2013 के अनुक्रम में जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 की धारा 25 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय कुलाधिपतिजी निम्नलिखित विधायकगणों को अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के खण्ड (नौ) के अन्तर्गत राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्य के रूप में जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के प्रबंध मण्डल में सदस्य मनोनीत करते हैं :—

1. श्री केदारनाथ शुक्ल,  
कमलकुटी, कोटहर, वार्ड नं. 15,  
जिला - सीधी (म.प्र.).
2. श्री गिरीश गौतम,  
मोहल्ला - उर्रहट,  
जिला - रीवा.
3. श्री तरूण भनोत,  
1101, भनोत हाउस,  
पं. बनारसी दास भनोट वार्ड, गोरखपुर,  
जिला - जबलपुर.

कुलाधिपति, जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के आदेशानुसार,  
शैलेन्द्र कियावत, राज्यपाल के उपसचिव.